

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल और स्वच्छता विभाग

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में मार्च, 2021 माह का मासिक सारांश।

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण चरण- // में प्रगति

मार्च 2021 माह के दौरान, 2,17,182 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 4,896 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया। माह के दौरान इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को 533.22 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

जल जीवन मेशन (जेजेएम) में प्रगति

मार्च 2021 के दौरान, 41,59,595 लाख घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक 3,22,84,505 करोड़ घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। माह के दौरान इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1,262.20 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

जेजेएम की निगरानी

केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति ने 13 मार्च, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/प्रभारी मंत्रियों के साथ जेजेएम की आयोजना और कार्यान्वयन की समीक्षा की।

जल शक्ति मंत्रालय के संबंध में चर्चा

दिनांक 09-10 मार्च, 2021 को राज्य सभा में जल शक्ति मंत्रालय के कार्यचालन के संबंध में चर्चा की गई थी। माननीय मंत्री, जल शक्ति ने माननीय सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दिया।

जल शक्ति मंत्रालय को सौंपे गए आकांक्षी जिलों की समीक्षा बैठक

माननीय मंत्री, जल शक्ति ने जल शक्ति मंत्रालय को सौंपे गए सभी 5 आकांक्षी जिलों नामतः राजस्थान में सिरोही, धौलपुर तथा करोली, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद तथा आंध्र प्रदेश में विजयनगरम के संबंध में दिनांक 23 मार्च, 2021 को समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय संसद सदस्यों ने भी भाग लिया। इन आकांक्षी जिलों के डीएम/डीसी को प्रगति में तेजी लाने के लिए कहा गया था।

ओडीएफ संबंधी प्रशिक्षण

जम्मू एवं कश्मीर के अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7 मार्च, 2021 से 10 मार्च, 2021 तक जम्मू तथा 17 मार्च, 2021 से 20 मार्च, 2021 तक श्रीनगर में ओडीएफ प्लस के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की निगरानी

सचिव, डीडब्ल्यूएस ने 10 मार्च, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा ग्रामीण स्वच्छता प्रभारी मिशन निदेशकों के साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत की प्रगति की समीक्षा की।

क्षेत्रीय दौरे

विभाग के परामर्शदाताओं की टीम ने एसबीएम (जी) के वास्तविक क्षेत्रगत कार्यान्वयन के आकलन के लिए 15 मार्च, 2021 से 18 मार्च, 2021 के दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा में गांवों के क्षेत्रीय दौरे किए।
